



WEEK 4

SUMMER VACATION ACTIVITIES

Dear Children

The holiday season is the perfect time to relax and reflect on the blessings in our lives besides working towards enhancing our skills. This year, we have tried to keep the Holiday Homework simpler yet informative and more interesting. The intent is to promote not only academic learning through interesting assignments but also activities which can gradually become hobbies.

Here are a few suggestions for you:-

- Make sure to spend quality time with your family
- Help your mother in the household chores
- Read interesting books and watch good English programmes
- Play indoor games with your family
- Follow the instructions given by your teachers and try to complete your HHW independently

**CLASS
III**

Take care and stay safe !!

HINDI

1. जीवन में संतुलित आहार खाना बहुत ज़रूरी है और स्वस्थ जीवन के लिए छुट्टियाँ सभी छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखने का सबसे अच्छा समय है। 'स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है' विषय पर गूगल/यू-ट्यूब या अन्य संसाधन की मदद से एक नैतिक शिक्षा पर आधारित कहानी तैयार करें तथा कठपुतली (Puppet) के माध्यम से अपनी कहानी को कक्षा में प्रस्तुत करें।



2. एक स्वस्थ जीवन शैली में योग तथा व्यायाम का क्या महत्व है ? इससे संबंधित एक रचनात्मक लेख लिखें और चित्र भी चिपकाइए।



3. आधुनिक जीवन शैली में मोबाइल फोन, वीडियो गेम, टी. वी. बुरा प्रभाव डालते हैं। इस विषय से संबंधित एक पोस्टर ए -3 शीट पर बनाइए।



4. गर्मी में खाई जाने वाली कच्ची सब्जियों का चटपटा सलाद, सैंडविच या फलों की चाट बनाकर खाइए और उसे बनाने की विधि ए -3 शीट पर लिखिए। उसे बनाते हुए अपनी फोटो चिपकाइए।



5. हिंदी पिटारा पुस्तक की पाठ 1 से 3 कहानियाँ पढ़िए तथा लेख को सुंदर बनाने के लिए पिटारा पुस्तक की पहली तीन कहानियों से 10 सुलेख लिखिए।

नोट: प्रश्न 2 और 5 स्कैप फाइल में कीजिए। नई आशाएँ तथा शिक्षार्थी व्याकरण पुस्तक के पढ़ाए गए पाठों का अभ्यास अवश्य करें।